

Manufacturers & Exporters & Importers

Date: July 03, 2019

To, BSE Limited Phiroze Jeejeebhoy Towers Dalal Street, Fort Mumbai - 400 001, India

Sub: Compliance under Regulation 47 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 ["Listing Regulations"]

Reg.: Submission of copies of Newspaper Advertisement for Postal Ballot.

Scrip code - 526705

Dear Sir / Madam,

Pursuant to Regulation 47 of the Listing Regulations, Please find attached herewith the copy of the newspaper advertisement published today in Business Standard (English) all over India and Jagruk Times (Hindi) having wide circulation in the district in which the Registered Office of the Company is situated, with respect to completion of dispatch of notice of Postal Ballot to the Members of the company on July 02, 2019.

The newspaper advertisements are also available on the website of the Company at www.elegantmarbles.com

This is for your information and records.

Thanking you,

Yours truly,

For Elegant Marbles & Grani Industries Limited

Rajesh Agarwat

Chairman & Managing Director

DIN: 00017931

Encl: As above







The Galleries

Elegant House, Raghuvanshi Mills Compound, S. B. Marg, Lower Parel (W), Mumbai - 13, T: (91-22) 2493 9676, 2491 1144 F: (91-22) 2493 0782

Plot No 2099, Western Express Highway, Vile Parle (E), Mumbai - 99. Telfax: (91-22) 2610 9871, 2615 0120

Works & Registered Office

E-7, 8, 9, RIICO Industrial Area, Abu Road, District Sirohi 307026, Rajasthan - India. T: (91-2974) 294792

E: elegantmarbles@gmail.com www.elegantmarbles.com CIN: L14101RJ1984PLC003134

**NOTICE INVITING TENDERS** 

Cost/EMD

(Rs.)

2,50,000

ebsite www.tatapower-ddl.com → Vendors Zone → Tender / Corrigendum Document

**ELEGANT MARBLES AND GRANI INDUSTRIES LIMITED** 

CIN: L14101RJ1984PLC003134

Reg. Office: E -7/9, Abu Road, RIICO Industrial Area, Sirohi, Rajasthan, 327026, India Corporate Office: Elegant House, Raghuvanshi Mills Compound,

Senapati Bapat Marg, Lower Parel (West), Mumbai - 400013. Maharashtra. India

Tel: +91-22-24960771 • Fax: +91-22-24930782

Website: www.elegantmarbles.com • Email: elegantmarbles@gmail.com

POSTAL BALLOT NOTICE

Members are hereby informed that pursuant to Section 110 and Section 108 of the Companies Act, 2013 ("Act") read with Rules 20 and 22 of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014 as amended from time to time, the Company has on Tuesday July 02, 2019, dispatched the Postal Ballot Notice ("Notice") along with the Postal Ballot Forms shedules.

Formas below: a) Through email to the Members whose email IDs are registered in the records of the Depository Participants/Company's Registrar and Transfer Agent (RTA) viz. Universal Capital Securities Private Limited;

b) Through permitted physical mode along with self-addressed postage prepaid envelope to

the Members whose email IDs are not registered; for seeking their approval by way of Special Resolution as mentioned in the notice dated May

The voting rights have been reckoned on the paid-up value of the equity shares registered in the name of the Members as on cut-off date i.e. Friday, June 21, 2019. A person who is not a Member as the cut-offdate should treat this notice for Information purpose only.

The Postal Ballot Notice and the Postal Ballot Form are available on the Company's website

www.elegantmarbles.com and the website of the stock exchange where the equity shares of the Company are listed i.e. BSE Limited.

the Company are listed i.e. BSE Limited. The Company has engaged the services of Central Depository Services Limited (CDSL) for providing e-voting facility to its Members. Voting through Postal Ballot and e-voting will commence on Wednesday, July 03, 2019 at 9,00 A.M. (IST) and will end on Thursday, August 01, 2019 at 5,00 P.M. (IST). Postal Ballot Forms received after 5,00 P.M. (IST) on Thursday, August 01, 2019 will be considered invalid. E-voting will be blocked by CDSL at 5,00 P.M. (IST) on Thursday, August 01, 2019. The Board of Directors have appointed Mr. Virendra Bhatt, Practicing Company Secretary as the Scrutinizer for conducting the Postal Ballot and e-voting process in a fair and transparent manner. Member(s) desirous to exercise vote through Postal Ballot may complete the Postal Ballot Form and send duly filled and signed Postal Ballot Form to the Scrutinizer, so as to

Ballot Form and send duly filled and signed Postal Ballot Form to the Scrutinizer, so as to reach not later than 5:00 P.M. (IST) on Thursday, August 01, 2019.

a) The necessary instruction for e-voting has been set out in the Notice of Postal Ballot date May 28, 2019.

b) Once the vote on the resolution is cast by the Member, he/she shall not be allowed to

b) Once the vote on the resolution is cast by the Member, ne/sne shall not be allowed to change it subsequently or cast vote again.
c) The voting rights of the Members shall be in proportion to their shares of the paid-up equity share capital of the company as on the cut-off date.
d) A Member who does not receive the Postal Ballot Form or who wish to obtain a duplicate Postal Ballot Form may send an email toelegantmarbles@gmail.com or gamare@unisec.in.
The Postal Ballot Notice and the Postal Ballot Form can also be downloaded from the Company's website www.elegantmarbles.com,website of Universal capital Securities Private Limited at www.unisec.inand website of the BSE Limited, at www.bseindia.com
e) In case of any queries/ crievances. you may refer the frequently asked questions (FAQs)

e) In case of any queries/ grievances, you may refer the frequently asked questions (FAQs) and e-voting user manual available at the download section of www.evotingindia.comor contact the Depository: Mr.Rakesh Davi, Deputy Manager, Central Depository Services (India) Limited, e-mail: helpdesk.evoting@cdsl.com, Phone No: 022-2305 8542.

(India) Littlete, e-main ineploes-e-wouling@cust.com, Frincie No. 022-2003-6942.

If The results of voting by postal ballot along with the Scrutinizer's Report will be declared by the Chairman orany authorized Director of the Company on or before 06.00 P.M. (IST) on Saturday, August 03, 2019 at the Corporate Office of the Company and intimated to the BSE Limited and also displayed on Company's website viz. www.elegantmarbles.comand website of the BSE Limited, at www.bseindia.com.

For Elegant Marbles and Grani Industries Limited

Rajesh Agrawal

DIN: 00017931

Chairman & Managing Director

The members of the Company are also bereby informed and requested to note that

Tender Enquiry No.

TPDDL/ENGG/ENQ/200001130/19-20

FPDDL/ENGG/ENQ/200001129/19-20

100mm, 50mm, 40mm for 2 Years

Rate Contract for Supply of GI Pipes

Complete tender and corrigendum document is available on our

For Professional Services towards Inte-

TATA POWER DELHI DISTRIBUTION LIMITED

gd. Office: NDPL House, Hudson Lines, Kingsway Camp, Delhi 110 009 Tel: 66112222, Fax: 27468042, Email: TPDDL@tatapower-ddl.com

Last Date & Time

of Bid Submission

Date and time of

Opening of bids

24.07.2019; 1600 Hrs.

24.07.2019; 1630 Hrs

24 07 2019: 1600 Hrs

24.07.2019; 1700 Hrs

Contracts - 011-66112222

CIN No.: U40109DL2001PLC111526, Website: www.tatapower-ddl.com

Estimated Availability

03.07.2019

03.07.2019



Anil Kapoor and Ishan Khattar are the faces of the brand in its first big multimedia

# Spotify tunes into Bollywood pitch

With movie stars as ambassadors and a campaign launched during the World Cup, the music streaming platform looks for mass appeal

**URVI MALVANIA** Mumbai, 2 July

√ive months since it started streaming into India, Spotify is dialling in a local tune. With Bollywood on its playlist, movie stars as brand endorsers and a campaign on TV and digital around the

ongoing cricket World Cup, Spotify is leaving no trope unturned in its quest for the Indian listener. In this the Swedish-born, global music streaming app is doing what a number of global brands navigating their way through the country's complex consumer landscape have done, but does it risk losing its identity unique

the process? The company is confident that it is time to go mass. Hence a television campaign, something that very few music streaming platforms have done yet, focusing largely on digital and outdoor. And this is also the reason that it

RBI may get ...

"The government has received a proposal

from the RBI to strengthen the RBI's reg-

ulatory and supervisory powers under the

Reserve Bank of India Act, 1934, and the

same is under consideration,"

owned by the RBI. But the government

made by the NHB have to be in consulta-

Sources say a possible credit line for

the sector is not being made possible

because the RBI cannot do so as long as

the NHB remains the regulator. Once the

RBI gets the regulatory powers over

HFCs, it will be able to extend a credit

line in the form of liquidity window

Till April this year, the NHB was fully

▶ FROM PAGE 1

Sitharaman said.

tion with the RBI.

development in the sector.

has used Bollywood actors Anil Kapoor and Ishaan Khattar for the campaign. The two represent the two ends of the demographic segment that the streaming app wants to appeal to.

director-India, Spotify, says, "The first campaign (digital and outdoor) was to tell those who know about us that we are now available in India, with the same robust library of playlists that we are known for. With the television commercial, we are going mass, getting the fringe users in."

go all out to expand the listener list now because there still is huge room for growth. Deloitte and Indian Music audience of more than 225 million, which is expected to grow to 500 million by the

son, the audio digital music audience is around 150 million scribers, which is only 60 per cent of the online video

audience, indicat-Amarjit Batra, managing ing the significant growth opportunity in the audio OTT space." While this does dilute the identity of the brand with its core base of listeners, it cannot afford to ignore the genre in India, they say. This was also

Experts point out that the rationale for an early tiemusic streaming apps have to up with T-Series for its Bollywood library. been conceptualised by Leo According to a report by Burnett and is derived from the insight that music attracts Industry (Audio OTT econopeople from all age groups, my in India – Inflection point) and can be a unifier across "India has an online video generations. And the goal of the communication is to convey the width and depth of Spotify's music catalogue. end of CY2020. In compari-"Since our launch in India,

available to banks.

we've engaged with our listeners based on how they experience music. The new campaign reinforces how seamlessly Spotify fits into their lives." Batra explains.

Rajdeepak Das, managing director India and chief creative officer South Asia, Leo Burnett, adds, "The youth in India often deals with the pressures of judgement, individuality, social norms, and more; in this chaos, music acts as a companion." He believes that the father-son relationship is also portrayed within a contemporary context, in tune with the brand's core value.

Campaigns however can only take it a short distance, listener experience is the key and as several consumer reports have pointed out, digital entertainment apps face a huge challenge in meeting customer expectations on this score. Spotify says it is working on the uniquely Indian issues that clog up the streaming business, it has introduced features like 'Spotify lite' a lighter version of the app which enables

users with entry

users in areas with

need to take a look

matrix as it is cur-

rently the most

expensive month-

"One of the things level smartphones we learnt when to use the app. It we researched the also uses a lower market was that bandwidth in India, while people love to low mobile interlisten to music, net connectivity they don't can also stream consciously go music. However. about discovering Spotify may also music' at the price-value AMARJIT BATRA

sub-

The Spotify campaign has

Managing director-

Music) at ₹129. Batra believes that the brand has managed a keen grasp of the Indian listener in the months it spend researching the market. "One of the things we learnt when we researched the market was that in India, while people love to listen to music, they don't consciously go about discovering music. So we have daily playlists generated depending the user's listening history. This helps in discovering new music," Batra says.

ly pack (with Amazon Prime

Head Office : 'Lokmangal', 1501, Shiyajinagar, Pune-05

AX1/IT/RFP- 012019/ITAM

03/07/2019 Bank of Maharashtra invites sealed tender offers (Technical bid and Commercial bid) from eligible bidders for Supply, Implementation and Maintenance of IT Asset Management (ITAM) Solution. The details and ender document would be available from 03/07/2019 on Bank's website https://www.bankofmaharashtra.in in the Tenders Section. The RFF document can be obtained by interested bidders by paying the require price and submitting a non-disclosure agreement. Bank reserves the right to ancel or reschedule the RFP process without assigning any reason

Deputy General Manager, Information Technology

ANDHRA PRADESH POWER GENERATION CORPORATION LIMITED VIDYUTH SOUDHA:: VIJAYAWADA

APGENCO E — PROCUREMENT for Tender NOTIFICATION

NOTICE INVITING TENDER No.E-610000543/ HPC&HP/APGENCO /2019

CE(HPC&HP):- APGENCO invites tenders for "SRBPH (7X110 MW)-Design, engineering, manufacture, assembly, stage testing inspection and testing before supply and delivery at site and receipt netting and compressioning of 1 No.

supply and delivery at site and erection, testing and commissioning of 1 No. 5, 7.5MvA, L32/11 Kv, 3-Phase, ONAN/ONAF Cooling Power Transformer complete with all fittings, accessories, associated equipment and Remote transformer control panel along with mandatory spares at Srisailam Right Bank Power House, (7X110MW) located at Srisailam Dam East, Kurnool District of Andhra Pradesh Stae\* through APGENCO e-procurement. Estimated value of Procurement: N/A.The Bid Start date and time : 27.06.2019 @ 17:00 Hrs The Bid Submission closing date and time through online: 22.07.2019 @ 17:00 Hrs The Bid Submission closing date and time through online: 22.07.2019 @ 17:00 Hrs Through online: 22.07.2019 @ 17:00 Hrs. For further details please visit <a href="https://etender.apgenco.gov.in">https://etender.apgenco.gov.in</a>. Or by using the link through APGENCO website:<a href="https://www.apgenco.gov.in">www.apgenco.gov.in</a>.

#### PUBLIC NOTICE NOTICE REGARDING LOST CERTIFICATE(S) OF

/WE. Mr. Dhijen Rajendrabhai Mehta, Residing At 120, Dariya Mahal, A-80, Nepean Sea Road, Mumbai - 400006. The registered holder(s) of the under mentioned shares held in the above said company, hereby give notice that the share certificate(s) in respect of the said hares have been lost and I Have applied to the Company for issue of duplicate certificate(s) Any person having claim in respect of the said shares should lodge such claims with the Company at its above referred address within 15 days from this date, else the Company will proceed to issue duplicate certificate(s) and no further claim will be entertained by the

I	Folio no's	Name of Shareholders	Distinctive no's	Certificate no's	No of Shares
I	CA239	MR. DHIJEN RAJENDRABHAI MEHTA	8582661-8582760	1749	100
Date : 03/07/2019				PI	ace · Mumbai

#### **JINDAL DRILLING & INDUSTRIES LIMITED**

CIN: L27201MH1983PLC233813 REGD. OFF: Pipe Nagar, Village Sukeli, N. H. 17, B.K.G Road Taluka Roha, Distt. Raigad - 402126 (Maharashtra) E-mail: secretarial@jindaldrilling.in, Website: www.jindal.com

NOTICE is hereby given that the Share Certificate No. 169 bearing Distinctive No. 300581 to 300680 for 100 Equity Shares of Rs. 10/- per share (since split into two shares of Rs. 5/-each) of the company has been reported lost/misplaced by RAJ PAL VIJ (Folio No. 01476) being the registered shareholders/claimants thereto has applied to the compar for the issue of Duplicate Share Certificate(s) in lieu thereof.

Any person(s) who has/have any claim/objection in respect of the abov Share Certificate(s) should lodge such claims with the Company at Plot no 30, Institutional Sector 44, Gurgaon -122003 within 15 days of the publication of this notice after which no claim shall be entertained and the company shall proceed to issue Duplicate Share Certificate(s) to the shareholders/ claimants without any liability on its part

For Jindal Drilling & Industries Ltd

SAURABH AGRAWAL

NOTICE

Notice is hereby given that Certificates of Shares of **ADF Foods Ltd.**Having Registered office at 83/86, G.I.D.C. Industrial Estate, Nadiad, Pin 378001 standing in the name of **Mr. Kishor Premj Dedhia and Mrs. Zaver Kishor Dedhia** under folio No. K012168 pearing Certificates No. 7477, 8834, 8889, 10614, 11407, 13758 16986, 31907 and 37439 of 100 shares each bearing Distinctive Nos. 746971 to 747070, 882671 to 882770,888171 to 888270 1060671 to 1060770,1139971 to 1140070, 1375071 to 1375170 1697871 to 1697970,3189971 to 3190070 and 3743171 to 3743270 respectively have been lost or misplaced and application has bee made to the company to issue duplicate in lieu thereof.

Any person who has a claim in respect of the said Shares should lodge such claim with the company's Registrars and Transfer Agent at 'Link Intime India Pvt. Ltd.( Formerly Intime Spectrum Registery Ltd.) At C-101, 247-Park L.B.S. Road ,Surya Nagar, Vikhroli-West Mumbai-400083 within 15 days from the date of publication of this notice, else the company will proceed to issu Duplicate Certificates.

Name and Address of the Shareholders 1. Mr. Kishor Premji Dedhia & 2. Mrs. Zaver Kishor Dedhia 503, Pathak residency, N.L. Complex Road Dahisar(East), Mumbai, 400 068

# YASH

YASH PAPERS LIMITED

Regd. Office: Flat No. 202, 3A/172, Azad Nagar, Kanpur - 208002, Uttar Pradesh
Corp. Office: Yash Nagar, Ayodhya - 224135, Uttar Pradesh
CIN: L24231UP1981PLC005294 | T: +91 5278 20890/011 | F: +91 5278 258062
E: info@yashpapers.com | Website: www.yashpapers.com NOTICE

Notice is hereby given that pursuant to Regulation 29 read with Regulation 47 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, a meeting of the Board of Directors of the Company will be held on Saturday, 10th August, 2019, inter-alia, to consider and approve Unaudited Financial Result of the Company for the 1st quarter ended 30th June, 2019.

Further in pursuance of SEBI (Prohibition of Insider Trading) Regulations 2015, Trading Window shall remain closed from 01st July, 2019 to 13th August, 2019 (both days inclusive).

The information in the above notice is also available on the website of the Company www.yashpapers.com and also on BSE Limited www.bseindia.com.

for Yash Papers Limited

Place: Ayodhya

Date: 02.07.2019

Sachin Kumar Srivastava Company Secretary & Head Legal

#### NATIONAL COMPANY LAW TRIBUNAL, MUMBAI BENCH COMPANY SCHEME APPLICATION NO. 841 OF 2018 In the matter of the Scheme of Amalgamation

OF Multiurban Infra Services Private Limited

Devaan Ventures Private Limited

AND ...Transferor Company

and their respective sha ADVERTISEMENT OF NOTICE OF THE MEETING OF EQUITY

PRIVATE LIMITED Notice is hereby given that by an order dated May 31st, 2019, the Mumbai Bench of the National Company Law Tribunal ("NCLT") ("Order") has directed a separate meetings to be held of equity shareholders and Unsecured Creditors of Deyaan Ventures Private Limited ('DVPL') for the purpose of considering, and if thought fit, approving with or without

SHAREHOLDERS AND UNSECURED CREDITORS OF DEYAAN VENTURES

modification, the Scheme of Amalgamation of Deyaan Ventures Private Limited with Multiurban Infra Services Private Limited and their respective shareholders, pursuant to the provisions of Sections 230 to 232 read with Section 66 of the Companies Act, 2013 ("Act"), as applicable (including any statutory modification(s) or re-enactment thereof, for the time eing in force) (the "Scheme"). In pursuance of the said Order and as directed therein, further notice is hereby given that

eeting of the Equity Shareholders and Unsecured Creditors of DVPL will be held on Saturday, 13th July, 2019 at 10.00 A.M and 11.00 A.M, respectively at C/o Rohit Rander. arvodaya Cloth Market, Gandhibag, Nagpur - 440002, Maharashtra, India, at which time and place the Equity Shareholders and Unsecured Creditors are requested to attend.

Copies of the said Scheme and of the Statement under Section 230 of the Act can be obtained free of charge at the registered office of DVPL. Persons entitled to attend and vote at the meeting, may vote in person or by proxy, provided that all proxies in the prescribed form are deposited at the registered office of DVPL, as applicable, at C/o Rohit Rander, Sarvodaya Cloth Market, Gandhibag, Nagpur - 440002, Maharashtra, India not later than 48 hours pefore the aforesaid meeting.

Forms of proxy can be obtained free of charge at the registered office of DVPL The NCLT has appointed Mr. Anando Mukherjee, Advocate as the Chairperson of the

entioned equity shareholders meeting for DVPL. The NCLT has appointed Mr. Anando Mukherjee, Advocate as the of the aforementioned

insecured creditors meeting for DVPL. The above mentioned Scheme, if approved in the meeting of DVPL will be subject to the subsequent approval of the NCLT.

Dated at this 02<sup>nd</sup> July, 2019

DIN: 02187354 Director of the Company



Place: Mumba

ZEE ENTERTAINMENT ENTERPRISES LIMITED

Regd. Office: 18th Floor, 'A' Wing, Marathon Futurex, N M Joshi Marg, Lower Parel, Mumbai- 400013 Tel:-91-22-71061234 Fax:-91-22-23002107 CIN: L92132MH1982PLC028767 Website: www.zeeentertainment.com

NOTICE

NOTICE is hereby given that the 37th Annual General Meeting (AGM) of the Equity Shareholders of Zee Entertainment Enterprises Limite will be held at Nehru Auditorium, Nehru Centre, Dr Annie Besant Road Worli, Mumbai - 400 018 on Tuesday, July 23, 2019 at 4.00 p.m.

Notice of AGM along with the Annual Report comprising inter alia the Audited Financial Statements on a standalone and consolidated basis Directors' Report & Auditor's Report for the financial year ended March 31, 2019 has been sent to the Equity Shareholders at their registered addresses in the permitted mode and electronically to those Equity Shareholders who have registered their email addresses

In compliance with Regulation 44 of Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations 2015 and Section 108 of the Companies Act, 2013 read with Rule 20 o the Companies (Management and Administration) Rules, 2014, the Company is pleased to provide all its Equity Shareholders, the facility to exercise their vote on all items of the business included in the Notice of the AGM, electronically (remote e-voting) through e-voting facilities provided by National Securities Depository Limited (NSDL). The remote e-voting for all items of business contained in the Notice of AGM shall commence from Friday, the 19th day of July 2019 at 9.00 a.m and will end on Monday, the 22<sup>nd</sup> day of July 2019 at 5.00 p.m. The remote e-voting module shall be disabled by NSDL for voting thereafter During this period. Members holding Equity shares of the Company in

Facility for voting at the venue will also be made available for those members who have not cast their vote by remote e-voting. Members who have cast their vote by remote e-voting prior to AGM may also attend the AGM but shall not be entitled to vote again at the AGM. A person whose name is recorded in the Register of Members or in the Register of Beneficial Owners maintained by the Depositories as at the cut-off date i.e. July 16, 2019 only shall be entitled to avail the facility o remote e-voting as well as voting at the AGM.

physical or dematerialized mode as at the cut-off date of Tuesday

July 16, 2019 may cast their vote electronically


Any person, who acquires Equity shares of the Company after dispatch of Notice of AGM and holding shares as at the cut-off date i.e. July 16 2019, may obtain login ID and password for E-voting by sending a request at evoting@nsdl.co.in

Notice of AGM is available as part of Annual Report on the website of the Company at <u>www.zeeentertainment.com</u> and also on the website of NSDL at www.evoting.nsdl.com. In case of any query on remote e voting, Members may refer to FAQs and/or e-voting user manual available on website of NSDL at <u>www.evoting.nsdl.com</u> or contact Ms Pallavi Mhatre, Manager, NSDL at the designated e-mail ID evoting@nsdl.co.in or telephone nos. i.e. 022-24994545 or 1800-222

**NOTICE** is further given that Tuesday, July 16, 2019 has been fixed as the Record Date for the purpose of AGM and for determining entitlemen of Equity Dividend for the Financial Year 2018-19. Equity Dividend, i approved for the Financial Year 2018-19 will be paid to those equity shareholders whose name appear in the Register of Members of the Company, after giving effect to all valid share transfers in physical form lodged with the Company or its Registrar on or before the Record Date i.e. July 16, 2019 and in the list of beneficial owners furnished by National Securities Depository Limited and/or Central Depository Services (India) Limited, in respect of shares held in electronic form, as at the end of

the business day on July 16, 2019. For Zee Entertainment Enterprises Limited M Lakshminarayanan

Place: Mumbai Chief Compliance Officer & Date: July 2, 2019 **Company Secretary** 



**SOLUTION TO #2781** Easy 1 2 7 5 8 9 2 9 5 3 4 8 7 1 6 4 1 7 5 3 9 2 6 8

Fill in the grid so that every row, every 3x3 box 1 3 2 6 7 5 8 9 4 contains the 9 4 8 2 1 3 6 5 7 digits 1 to 9

Solution tomorrow

**HOW TO PLAY** 

every column and

#### DHFL set to get ...

Sources close to the development said banks had less than a week's time (till July 6) to sign the inter-creditor agreement, and on July 10, the resolution plan would be formally placed at the consortium meeting. The resolution plan needs to be imple-

took control of the housing finance regumented by September 25. lator on April 29. So, in a way, HFCs being It is also learnt that banks are reviewing regulated by the RBI would not be alien the quality of DHFL's loan book (retail and waters for the banking regulator. This is developer loans) and if found suitable, the consortium may agree to extend the an arrangement where primary rules are tenure of the existing loans to match the The London-based High Commission of set by the RBI and supervised by the housmaturity schedule of DHFL's assets. "If this ing regulator, clarified a person familiar option fails, some banks may opt to buy out DHFL's loans in lieu of their present Although the contours are not clear yet, exposure," said a person aware of the it could also happen that all regulations development. As the last option, banks are also examining the possibility of converting part of their debt into equities or share

Shaktikanta Das, the RBI governor, said in his post-monetary policy conference "The conversion will happen at market last month that even as housing finance value, but it is unlikely that banks may colfirms were not regulated by the central lectively hold more than 10 per cent in bank, it was keeping close vigilance on the

DHFL," said a source. As for private equity (PE) investors evincing interest in the business, it is understood that a foreign investor would pick up a stake in the company. AION Capital, a joint venture between ICICI Venture and Apollo Capital Management, Lone Star and Oak Tree Capital are said to be in fray to pick up a stake in DHFL.

#### **ED summons** ICRA...

Those ratings were in place when its subsidiary IL&FS Transportation Networks defaulted in June last year. IL&FS was downgraded in August to D, make the company's debt junk. "The rating agencies have to

confront evidence that shows discrepancies in the books of IL&FS and its subsidiaries, and also the debt repayment obligations, which they seem to have ignored," said the official cited above. ICRA on Monday asked its Managing Director and Chief Executive Officer Naresh Takkar to go on indefinite leave, pending an enquiry into concerns raised by the Securities and Exchange Board of India (Sebi).

The markets regulator is probing the three rating firms and is likely to give an order soon in the matter.

#### Mallya ...

There's a "real risk" that political pressures "will undermine the fairness of any trial," Mallya's lawyers said in court filings for

Tuesday's hearing.

If sent to India, he'd be held in Barrack 12 of Mumbai's Arthur Road jail, which has seven or eight people in cells designed for six, Mallya said in his filings, citing an Indian lawyer who's visited the wing.

That lawyer said the wing is "unbearably hot in the summer," doesn't have enough light for reading and has dust and noise pollution from a large slum area nearby, Mallya argued in his filings. Rats and insects "are visible and have 'free run in the cells'," it said.

The UK and Indian governments ren't represented at Tue India didn't immediately respond to an email seeking comment. Mallya was arrested in London in April 2017 after a consortium of 17 banks accused him of wilfully defaulting on more than ₹9,000 crore in debt accumulated by his Kingfisher Airlines —a full-service carrier he founded

in 2005 and shut down seven years later. Lower court judge Emma Arbuthnot largely rejected Mallya's arguments that the case was politically motivated when she ruled in December that he could be sent to India.

#### Ola Electric turns...

Aryaman Tandon, director at management consulting firm Praxis Global Alliance, said EVs hold a promising opportunity in India. He said any market with a high density of population, low average road transportation speeds, and availability of affordable electricity, represents a fundamentally attractive market for EVs.

"India, as a market, is characteristic of all these underlying macro drivers and has also rapidly improved the electricity supply infrastructure in the last decade," said Tandon. In May, Ratan Tata, chairman emeritus of Tata Sons, invested an undisclosed sum in Ola Electric. The firm had also raised a sum of ₹400 crore in March, led by several of Ola's early investors, Tiger Global, Matrix India and others, as part of its first round of investment.

Experts said the new funding round has also suppressed speculations that Bhavish Aggarwal-led Ola and Ola Electric were trying to avoid additional investments from SoftBank.

Masayoshi Son-led SoftBank's Vision Fund has over \$100 billion in committed capital for tech investments. Last month. at a general shareholders' meeting in Tokyo, Son had said SoftBank Vision Fund aims to accelerate the "information revolution" by continuously making largescale and long-terms investments in companies aiming to realise next-gen innovations and platform business.

biggest revolution in human history," said Son. He had, however, also said SoftBank's role is not to develop AI technologies such as autonomous driving but he wants his portfolio companies such as Uber, DiDi, Grab and Ola to develop them.

"Artificial intelligence, I think is the

















# बालसभा में नवप्रवेशित विधार्थियों का स्वागत किया

जागरूक टाइम्स संवाददाता सिरोही। सिरोही विधायक संयम लोढा ने कहा कि शिक्षा वह है जो हमें दूसरों की पीड़ा को समझने तथा दूसरों की तकलीफको दूर करने का माध्यम बनने की सोच प्रदान करें। सिर्फ डिग्री या नौकरी हासिल करना ही हमारी शिक्षा का मकसद नहीं होना चाहिए। वे सिरोही में भाटकडा के राजकीय माध्यमिक विद्यालय की मालियों के नोहरे में आयोजित बाल एवं सामुदायिक सभा को सम्बोधित कर रहे थे। उन्होंने बच्चों को गुरुकुल काल की तीन विद्यार्थियों की कथा सुनाकर शिक्षा का अर्थ समझाया। प्रधानाध्यापक अमृतलाल माली ने सांसद कोष से कमरे की राशि नहीं मिलने व विद्यालय का पट्टा नहीं बनने की जानकारी दी तो विधायक ने जिला परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी नाथूसिंह राठौड़ को सांसद कोष से स्वीकृत धनराशि जारी करने के निर्देश दिए। मुख्य कार्यकारी अधिकारी ने समग्र शिक्षा अभियान के अधिकारी को इस सम्बंधि में तुरन्त आवश्यक कार्रवाई कर कागजात प्रस्तुत करने के निर्देश दिए, ताकि आगे की कार्रवाई की जा सके। विधायक ने नगर परिषद आयुक्त शिवपालसिंह राजपुरोहित को भी स्कूल का पट्टा बनाने के निर्देश दिए। कार्यक्रम में उपखण्ड अधिकारी हंसमुख कुमार, सिरोही नगर कांग्रेस अध्यक्ष जितेन्द्र ऐरन, समाजसेवी रघुनाथ माली, भूपत देसाई, विद्यालय प्रबंध समिति सदस्य कांतिलाल खत्री, पार्षद नेनाराम माली, अमियादेवी समेत कई गणमान्य लोग उपस्थित थे।

वेलांगरी। कस्बे के आदर्श राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय एवं राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय की राम झरोखा मंदिर परिसर में आयोजित बालसभा मां सरस्वती के समक्ष माल्यार्पण व दीप प्रज्जवलन के साथ आरम्भ हुई। 'तू ही राम है, तू ही रहीम है...' सर्व-धर्म प्रार्थना के साथ कार्यक्रमों की शुरुआत की गई। बालसभा के अध्यक्ष सरपंच प्रदीप कुमार, समन्वयक पटवारी बुधाराम, मुख्य अतिथि डॉ. जीसी माली, विशिष्ट अतिथि लाभूसिंह देवड़ा एवं महंत महावीर दास के सान्निध्य में नव प्रवेशित नौनिहालों का माल्यार्पण कर व कुमकुम तिलक से स्वागत किया गया।

बालसभा में स्थानीय विद्यालयों में नव प्रवेशित व ड्रॉप आउट छात्रों की सुची का पठन सुरेन्द्रसिंह ने किया। उन्होंने बालसभा के उद्देश्यों एवं इन्हें पूरा करने में ग्रामीणों से सहयोग व अपेक्षित योगदान पर प्रकाश डाला। मुख्य अतिथि डॉ. जीसी माली ने छात्रों एवं ग्रामीणों को स्वास्थ्य की जानकारी दी। भ्रूण हत्या रोकने व बेटियों को पढ़ाने की जरूरत पर जोर दिया। व्याख्याता भीमसिंह विद्यालय फ्लैगशिप योजना एवं महेन्द्रसिंह देवड़ा ने खेलकूद की जानकारी दी। पुस्तकालयाध्यक्ष टीना माहुर ने छात्रों को पाठ्यपुस्तकें वितरित की। बालसभा में अतिथियों व प्रधानाध्यापिका शशि चौधरी



गोयली। कस्बे के आदर्श राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय की वृहद सामुदायिक बाल सभा का आयोजन गांव के सार्वजनिक स्थल क्षेत्रपाल मंदिर परिसर में अतिथियों द्वारा मां सरस्वती माता की प्रतिमा पर दीप प्रज्वलित पुष्पहार पहनाकर कार्य' म की शुरुआत की गई। बाल सभा में छात्रों द्वारा गोविंद माली को अध्यक्ष बनाकर कार्य' म का संचालन किया। सामुदायिक बाल सभा में राज्य सरकार द्वारा मिनट टू मिनट कार्य म के अनुसार सभी बिंदुओं की पालना करते हुए। कार्यं म की शुरूआत में जनप्रतिनिधियों को पुष्पहार पहनाकर सम्मान किया गया। साथ ही नवप्रवेशित बालक बालिकाओं को तिलकए मूली व पुष्पहार पहनाकर स्वागत किया गया। उपस्थित विद्यार्थियों को निशुल्क पाठ्य पुस्तकों का वितरण करते हुए सत्र 2018.19 में कक्षा आठवीं में ए ग्रेड प्राप्त करने वाले अंकिता कुमारी, संतोष कुमारी, पिंकी कुमारी, तिलक कुमार. रवि कुमार व कक्षा दसवीं बोर्ड की परीक्षा में प्रथम वि' म कुमारए द्वितीय आयुषी रावल व तृतीय पवनी देवासी कक्षा 12वीं में प्रथम हर्षद कुमार सोलंकीए द्वितीय रेणुका माली तृतीय हर्षा कुमारी को पुरस्कार व माला पहनाकर स्वागत किया गया। संस्था प्रधान ईश्वरलाल पुरोहित ने सरकारी विद्यालयों में विद्यार्थियों को प्रदान की जाने वाली फ्लैगशिप योजनाओं के बारे में बताते हुए छात्रों की प्रगति रिपोर्ट प्रस्तुत की। इस अवसर पर चिकित्सा विभाग से ईश्वरसिंह देवड़ा ने

प्रथम, द्वितीय व तृतीय स्थान पर रहे विद्यार्थियों को पुरस्कृत किया। कार्यक्रम को सफल बनाने में लादूसिंह देवड़ा, भीमसिंह, नवरतन, ईश्वर राजपुरोहित, पुष्पेन्द्र सिंह समेत कई लोगों ने सराहनीय योगदान दिया। मंच संचालन बालसभा प्रभारी चुन्नीलाल राणावत ने किया। कार्यक्रम प्रभारी भंवरलाल माली ने धन्यवाद ज्ञापित किया। शिवगंज। शहर के राजकीय बालिका उच्च प्राथमिक विद्यालय में पार्षद प्रकाशराज मीना, एसएमसी सदस्य रूस्तम अली अंसारी, जुली जैन, लॉयन्स क्लब के नरेन्द्र कुमार एवं प्रधानाचार्य हरिशंकर के मुख्य आतिथ्य में बाल सभा का आयोजन किया गया। प्रधानाचार्य ने उपस्थित सदस्यों को विद्यालय में सर्वोगा अंक प्राप्त करने वाली छात्राओं को सम्मानित किया एवं विद्यालय की मूलभूत समस्याओं पर चर्चा की। एसएमसी सदस्य जुली जैन ने भामाशाहों की सहायता से विद्यालय विकास के लिए आश्वासन दिया। पार्षद प्रकाशराज मीना ने सर्वोच्च अंक प्राप्त कर टॉपर रही छात्राओं के उज्जवल भविष्य की कामना की। कक्षा 1 से 8 तक लॉयन्स क्लब द्वारा पुस्तिका उपलब्ध करवाने पर संस्था प्रधान ने आभार प्रकट किया। बाल सभा में छात्राओं ने सांस्कृतिक प्रस्तृति दी। इस अवसर पर व्याख्याता संतोष गजराज, गुलाब मीणा, मधु कच्छवाह, महेन्द्र परी गोस्वामी, बिन्दिया गोस्वामी, कविता, वीणा गोयल, कानसिंह राठौड, यादवेन्द्र सिंह,



मिजिल्स रूबेला कन्या भ्रूण हत्या के बारे में जानकारी दी। महिला बाल विकास विभाग के सुपरवाइजर उत्तमसिंह ने आंगनवाड़ी में पढ़ने वाले बच्चों और महिलाओं को सुविधा के बारे में जानकारी दी। पदमा सुमन द्वारा राजीव गांधी केरियर पोर्टल व शारीरिक शिक्षिका सुशीला खत्री ने स्वस्थ

ने 5 वीं, 8वीं, 10वीं व 12वीं बोर्ड परीक्षा में पेपसिंह, मंछाराम, हेमन्त खत्री, महेन्द्र कुमार, प्रकाश कुमार उपस्थित रहे। संचालन वरिष्ठ अध्यापक किरण मीणा ने किया।

> इसी तरह। शहर के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में मंगलवार को आयोजित बाल एवं सामुदायिक सभा को संबोधित करते हुए सिरोही विधायक संयम लोढ़ा ने कहा कि सबसे जरूरी है प्रत्येक बच्चे का जिम्मेदार नागरिक बनना। उसमें इतना साहस होना चाहिए कि वो गलत को अस्वीकार करें और सही के लिए प्रयास कर सके। कार्यक्रम में उपखंड अधिकारी भागीरथराम चौधरी. प्रधानाचार्य जब्बरसिंह राव, पालिका उपाध्यक्ष मनीष सर्राफ, विद्यालय प्रबन्ध समिति सदस्य गिरीश शर्मा, शिवगंज कांग्रेस नगरध्यक्ष वजींगराम घांची, भाजपा नगरध्यक्ष प्रकाश भाटी, पार्षद झंकारसिंह, अशोक कुमावत, समाजसेवी रणछोड़लाल, गोविन्द स्थत थे। कार्यक्रम में विद्यार्थियों को छात्रवृति सहित अनेक योजनाओं की जानकारी उपलब्ध करवायी। अन्त में मेधावी एवं प्रतिभाशाली छात्र-छात्राओं को पुरस्कार वितरण कर खेल मैदान के किनारे-किनारे पौधरोपण किया गया। पिंडवाडा। राज्य सरकार के आदेशों की पालना में सामुदायिक बालसभा गोगाजी भवन में हुई, जिसमें राजकीय उच्च माध्यमिक बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय के छात्र छात्राओं स्टाफ और अभिभावकों सहित पिंडवाडा शहर के जनप्रतिनिधियों ने भाग लिया। कार्य म

भारत अभियान डिफेंस पर जानकारी दी कार्यं म में उपसरपंच लक्ष्मणसिंह सोलंकी द्वारा विद्यालय के लिए माइक सेट देने की घोषणा की, जिस पर उपस्थित जनसमुदाय ने तालियां बजाकर अभिवादन किया। अंत में व्याख्याता हितेष पुरोहित ने आभार

की शुरुआत मां सरस्वती के समक्ष मुख्य अतिथि डीईईओ प्रारंभिक सुरेश जीनगर ने दीप प्रज्जवलन कर की। दोनों विद्यालय के छत्रों को संयुक्त सभापति बनने का अवसर दिया गया। मुख्यअतिथि सुरेश जीनगर ने कहा कि राजकीय विद्यालय में यदि छात्र अध्ययन करता है तो वो सरकार की अनेक छात्रवृत्ति योजनाओं का लाभ प्राप्त कर सकता है। मुख्य अतिथि ने उपस्थित जनप्रतिनिधियों शिक्षको से आह्वान किया कि प्रवेशोत्सव कार्यं म को सफल बनाने में पूरा योगदान दे जिससे अधिकतम छात्रों का सरकारी विद्यालय में प्रवेश सम्भव हो सके। अभिभावकों की जेब पर शिक्षा के नाम से निजी विधालयों में वसूली पर लगाम लग सके। कार्यं म में उपस्थित पिंडवाड़ा नगर के पूर्व चेयरमैन अचलसिंह बलिया ने कहा कि आज राजकीय विद्यालय की स्थिति पहले जैसी नहीं है। सरकारी विद्यालय के परीक्षा परिणाम बेहतर आ रहे है उनमे सुविधाओं को पूर्ण कर योग्य शिक्षको से अध्ययन करवाया जाता है। अतः अभिभावकों को निसंकोच अपने बच्चों को सरकारी विद्यालय में प्रवेश दिलवाना चाहिए। कार्यं म में नगरपालिका प्रतिपक्ष नेता संजय गर्ग, निरीक्षण अधिकारी कृषि सहायक निदेशक डॉ वीरसिंह, नोडल प्रधानाचार्य मनोहरलाल, बालिका प्रधानाचार्य रमेशलाल बालिका व्याख्यता जगदीश खण्डेलवाल ने भी बाल सभा को सम्बोधित कर छात्रों अभिभावकों को राजकीय विद्यालय में नवीन प्रवेश हेतु प्रेरित किया।





का आयोजन गांव के चौराहे पर किया गया। कार्यं म में प्रभारी अधिकारी उपखण्ड अधिकारी-पिण्डवाडा के सान्निध्य में सम्पन्न हुआ। कार्यं म में संस्था प्रधान-हिन्दूराम डाबी मुख्य अतिथि सरपंच श्रीमती आशा कलबी, समाजसेवी महेन्द्रजी रावल, पशु रामलाल, शिवपाल, गोविन्दराम, प्रकाश कुमार, विनोदकुमार, उमरावसिंह, नारायण, सोमाराम गर्ग, मालाराम , शा. शिक्षक वरूणसिंह व अभिभावक गण, छात्र छात्राए मौजूद थे। कांय' म में कल्याणकारी योजनाओं पर वार्ता अध्यापक शिवपाल जाट, विद्यालय के भौतिक एवं शैक्षिक संसाधनों पर गोविन्दराम ने वार्ता

सरूपगंज। राउमा विद्यालय धनारी

की ओर से सामुदायिक बाल सभा



श्रीमती आषा कलबी ने अभिभावकों को राजकीय विद्यालय में प्रवेश का आग्रह किया। कार्यं म में एसडीएम पिण्डवाडा ने सरकारी विद्यालय की शैक्षिक गुणवता के बारे में प्रकारी डाला। साथ ही ने वक्षारोपण व पर्यावरण के प्रति लोगों को जागरूक

करने के लिए शपथ दिलायी। अंत में विद्यालय के संस्था प्रधान ने एक गीत प्रस्तुत कर अभिभावको को राजकीय विद्यालय में प्रवेष के लिए प्रेरित किया। बालक-बालिकाओं द्वारा सुन्दर ढंग से सांस्कृतिक कार्यं म पेश किया।

#### एलिगेंट मार्बल्स एंड ग्रानी इंडस्ट्रीज लिमिटेड

सीआईएनः एल14101आरजे1984पीएलसी003134 पंजीकृत कार्यालयः ई-7/9, आबु रोड, रिको इंडस्ट्रियल एरिया, सिरोही, राजस्थान-327026, भारत कार्पोरेट कार्यालय : इलीजेंट हाउस, रघुवंशी मिल्स कंपाउंड, सेनापती बापट मार्ग, लोअर परेल (पश्चिम), मुंबई, महाराष्ट्र-400013, भारत

फोन: 91-22-24960771, फैक्स: 91-22-24930782 ईमेलः elegantmarbles@gmail.com वेबसाइटः http://www.elegantmarbles.com

#### पोस्टल बैलेट सचना

सदस्यों को एतदद्वारा सुचना दी जा रही है कि कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 110 तथा 108 एवं समय-समय पर लागू नियम 20 एवं 22 के सपठित कंपनी नियम (प्रबंधन एवं प्रशासन), 2014 अनुसार पोस्टल बेलट प्रारूप सहित पोस्टल बैलेट की सूचना (सूचना) दिनांक 02 जुलाई 2019 को निम्नानुसार प्रेषित कर

ए ) ई-मेल दारा उन सदस्यों को जिनके ई-मेल आईडी हिपॉजिटरी पार्टीसीपेंटस/कंपनी रजिस्टार तथा टांसफर एजेंट अर्थात युनिवर्सल केपिटल सिक्यूरिटीज प्रायवेट लिमिटेड के पास उनके रेकॉर्ड में पंजीयन है।

बी) सेल्फ एड्रेस्ड पोस्टेज प्रीपैड एनवलप सहित अनुमति प्राप्त वास्तविक विधि से उन सदस्यों को जिनके ई-मेल आईडी पंजीकृत नहीं है। सचना दिनांक 28 मई 2019 में अंकित विशेष प्रस्ताव के द्वारा उनकी स्वीकृति प्राप्त करने हेत्।

. टींग अधिकार की पहचान कट-ऑफ दिनांक अर्थात 21 जून 2019 को सदस्यों के नाम से पंजीकृत अंशो

की पैड-अप वैल्यू आधार पर की जाएगी। एक व्यक्ति जो कट-ऑफ दिनांक को सदस्य नहीं है, वे केवल

जानकारी के उद्देश्य से इसे माना जाए। पोस्टल बैलेट सूचना एवं पोस्टल बैलेट प्रारूप कंपनी की वेबसाइट http://www.elegantmarbles.com

तथा स्टॉक एक्सचेंज जहां कंपनी के अंश लिस्टेड है, अर्थात बीएसई लिमिटेड की वेबसाइट पर भी उपलब्ध कंपनी द्वारा अपने सदस्यों को ई-वोटींग सविधा उपलब्ध कराने हेत सेंटल डिपॉजिटरी सविंसेस लिमिटेड

(सीडीएसएल) की सेवाओं की नियुक्ति की है। पोस्टल बैलेट एवं ई-बोटींग प्रक्रिया बुधवार 03 जुलाई 2019 को प्रातः 9.00 बजे (आईएसटी) से प्रारंभ होगी तथा गुरुवार 01 अगस्त 2019 को शाम 5.00 बजे (आईएसटी) समाप्त होगी। गुरुवार 01 अगस्त 2019 को शाम 5.00 बजे (आईएसटी) पश्चात प्राप्त पोस्टल बैलेट विचारार्थ नहीं होंगे। सीडीएसएल द्वारा गुरुवार 01 अगस्त 2019 को शाम 5.00 बजे (आईएसटी) बजे ई-वोटींग को ब्लॉक कर दिया जाएगा।

निष्पक्ष एवं पारदर्शी प्रक्रिया से पोस्टल बैलेट प्रक्रिया करने के लिए स्क्रूटिनाइजर के रूप में निदेशक मंडल द्वारा श्री विरेंद्र भट, प्रैक्टिसिंग कंपनी सेक्रेटरी को नियुक्त किया है। जो सदस्य पोस्टल बैलेट द्वारा अपने वोट का प्रयोग करना चाहते हैं, उन्हें पोस्टल बैलेट प्रपत्र भरना होगा तथा हस्ताक्षरित पोस्टल बैलेट प्रपत्र स्क्रटीनाइजर को गरुवार 01

अगस्त 2019 को शाम 5.00 बजे (आईएसटी) तक पहुंचाना होगा।

कंपनी के सदस्यों को यह भी सूचित किया जाता है कि निम्न तथ्यों को नोट करें: ए) ई-वोटींग हेतु आवश्यक निर्देश पोस्टल बैलेट सूचना दिनांक 28 मई 2019 में निर्देशित कर दिए गए है

बी) प्रस्ताव पर एक बार वोटींग करने के बाद उसे आगे परिवर्तन करने या फिर से वोट करने की अनुमति नहीं

सी) सदस्यों के वोटींग अधिकार कट-ऑफ दिनांक को कंपनी के उनकी पैड-अप अंश पूंजी के अनुपात म निर्णित होगा। ही ) यदि किसी सदस्य को पोस्टल बैलेट प्रपत्र प्राप्त नहीं होता है या जो डिप्लेकेट पोस्टल बैलेट प्रपत्र प्राप्त

सूचना तथा पोस्टल बैलेट प्रारूप कंपनी की वेबसाइट www.elegantmarbles.com, युनविसील केपिटल सिक्यूरिटीज प्रायवेट लिमिटेड की वेबसाइट www.unisec.in तथा बीएसई लिमिटेड की इनलैंड वेबसाइट www.bseindia.com से डाउनलोड कर सकते है। ई) किसी भी विवाद या शिकायत की दशा में आप फ्रीक्रेंटली आस्वड क्रेश्चन्स (एफएक्यू) तथा ww

evotingindia.com या डिपॉजिटरी श्री राकेश दलवी, डेप्यटी मैनेजर, सेंटल डिपॉजिटरी सर्विसेस लिमिटेड (इंडिया) लिमिटेड, ईं-मेल: helpdesk.evoting@cdsl.com, फोन नं. 022-23058542 पर संपर्क

एफ ) स्कटिनाइजर रिपोर्ट के साथ पोस्टल बैलेट द्वारा वोटींग का परिणाम कंपनी के अध्यक्ष या किसी प्राधिकृत निदेशक द्वारा कंपनी के कार्पोरेट कार्यालय में सोमवार, 03 अगस्त 2019 को 6.00 बजे(आईएसटी)/य पहले घोषित किया जाएगा एवं बीएसई लिमिटेड को सचित किया जाएगा तथा जहां कंपनी के इक्किटी शेय सूचीबद्ध हैं, समाचारपत्रों में प्रकाशित किए जाएंगे एवं कंपनी की वेबसाइट जैसे www.elegantmarbles om एवं बीएसई लिमिटेड की वेबसाइट www.bseindia.com पर पर प्रदर्शित किया जाएग

> कृते एलिगेंट मार्बल्स एंड ग्रानी इंडस्ट्रीज लिमिटेड हस्ता./-राजेश अग्रवाल अध्यक्ष एवंप्रबंध निदेशक

> > डीआईएन: 00017931

### बंद्रक से नारियल फोड़ने के लिए किए फायर से पास में खड़ा युवक घायल

» बंदूक के फायर से बंदुक की नाल फटने से लगा था छर्रा, एक युवक के खिलाफ किया मामला दर्ज

रोहिड़ा। समीपवर्ती गांव सिबली फली भुला में सोमवार शाम को एक शादी समारोह के पश्चात अचानक एक युवक द्वारा बंदूक से किए फायर से सिबलीफली भुला निवासी एक युवक गंभीर रूप से घायल हो गया था। युवक के परिजन उसे रोहिड़ा के सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र लेकर गये थे। जहां पर चिकित्सा अधिकारी अर्जुन मोदी ने प्राथमिक उपचार के पश्चात उसे सिराही रेफर कर दिया था। सिरोही ट्रोमा सेन्टर में चिकित्सकों ने युवक की छाती में बाई ओर लगा छर्र निकाल कर उसे पाली के बांगड अस्पताल रैफर कर दिया था। इधर सूचना पर रोहिड़ा पुलिस मय जाब्ता मौके पर पहुंची। पुलिस के अनुसार समीपवर्ती सिबली फली भुला में सोमवार को धर्माराम पुत्र कोलियाजी गमेती भील के घर पर शादी थी। शादी संपन्न हो जाने के पश्चात बारात वापस चली गई थी उसके पश्चात शाम को एक युवक द्वारा किये गये फायर में सिबलीफली भुला निवासी सवियाराम पुत्र भोमाराम गमेती भी गंभीर रूप से घायल हो गया था। जिससे रोहिड़ा के सरकारी अस्पताल में प्राथमिक उपचार के पश्चात उसे सिरोही रेफर किया गया था सिरोही ट्रोमा सेन्टर में

चिकित्सको ने सवियाराम के छाती में

#### शादी में तोरण का नारियल बंदूक से फोड़ने की परंपरा

में खडे थे। पपियाराम ने बंदुक से दो तीन बार फायर किया पर नारियेल नीचे नहीं गिरने से पुनः फायर करने लगा, तब सवियाराम ने पपियाराम को फायर करने से मना किया था पर पपियाराम ने नहीं मानकर जानबूझ कर फायर किया तब

बंदक की नाल फटी जिससे छर्रा पसलियों में लगा। छर्रा लगने से सवियाराम नीचे गिर गया। उस समय पर पास में खडे ईद्रामा व पुनियाराम ने उसे रोहिड़ा के सरकारी अस्पताल ले गया, जहां से उसे सिरोही रेफर किया था। पुलिस ने पपियाराम गमेती भी के 👨 खिलाफ मामला दर्ज कर तपतीश शुरू कर दी है।

किये गये फायरिंग से एक युवक पुलिस ने दुसरे दिन मौका मुआयना युवक के खिलाफ मामला दर्ज

पुलिस के अनुसार बारात में तोरण के पास उपर बंधे नारियेल को बंदूक से फायर कर नीचे गिराने की परंपरा होने से नीचली सिबली फली भुला निवासी पपियाराम पुत्र थावराजी गमेती भील बंदूक से फायर कर रहा था। उस समय सवियाराम, ईन्द्रामा व उसका भाई पुनियाराम पास

#### बालसभा में मेधावी छात्रों का किया सम्मान

रेवदर। सरेसी माता मंदिर रेवदर में वृहद बाल सभा का आयोजन रेवदर विधायक जगसीराम कोली मुख्य आतिथ्य मांगीलाल गोयल सीबीईओ की अध्यक्षता एवं पस. सदस्य प्रकाश मेघवाल के विशिष्ट आतिथ्य में आयोजित किया गया । बालसभा में जिला कलक्टर द्वारा पर्यवेक्षक के रूप में नियुक्त डॉ.हिमांश् उपस्थित रहे । बालसभा में अतिथियों ने शिक्षा के प्रचार प्रसार के लिए अभिभावकों से अह्वान करते हुए शत प्रतिशत नामांकन लक्ष्य को प्रा करने में भागीदारी निभाने की अपील की। इस अवसर पर श्रेष्ठ परिणाम देने वाले छात्र छात्राओं का साफा माला पहनाकर सम्मानित किया गया ।पूरे सिरोही जिले में विज्ञान संकाय में प्रकाशकुमार ने प्रथम स्थान हासिल किया । कला संकाय में अल्पेश गहलोत ने प्रथम स्थान प्राप्त किया। दोनों विद्यार्थियों द्वारा रेवदर का नाम रोशन करने पर अतिथियों ने इन्हें बधाई देते हुए उज्ज्वल भविष्य की शुभकामनाएं दी ।

#### सवियारम के छाती में बाई ओर प्राधिकृत अधिकारी कार्यालय-नगरपालिका सुमेरपुर सं.न.पा.सु. / भू.रू. / 2019-20 / लोक सूचना दिनांक: 18.06.2019 1790-1792

श्री फुलाराम पुत्र श्री रामारामजी , देवाराम पुत्र श्री फुलारामजी, साउंडराम पुत्र श्री फुलारामजी जातिगण–भील निवासीगण बोरानाडा, तहसील –लूणी जिला–जोधपुर (राज.) ने इस कार्यालय में नीचे उल्लेखित भूमि का गैर-कृषिक भू-उपयोग मुख्यमंत्री जनआवासीय प्रयोजनार्थ के उपयोग हेतु ऐसी भूमि के अपने अभिधृति अधिकारों के निर्वापन के लिए आवेदन प्रस्तुत किया है अर्थात्:

नले सहित तहसील 1 नाम	ग्राम का नाम	खसरा सं.	क्षेत्र
मेरपुर जिला–पाली	जाखोड़ा		रकबा 0.09838 रकबा 0.3095 रकबा 0.16 कुल रकबा 0.5833 हैक्टयर

लगा छर्रा निकाला था। बन्दूक से इसलिए इसके द्वारा समस्त संबंधित व्यक्तियों को सूचित किया जाता है यदि किसी व्यक्ति को राजस्थान मू-राजस्य अधिनियम , 1956 की धारा 90 –क और राजस्थान अभिधृति अधिनियम ,1955 की धारा 63 के अधीन पूर्वोत्तर गम्भीर घायल होने के मामले में प्रयोजनों के लिए भूमि के उपयोग हेतु अनुजा प्रदान करने और अभिधृति अधिकारों के निर्वापन पर कोई आक्षेप है तो इस नोटिस के प्रकाशन के 15 दिन के भीतर-भीतर किसी कार्य दिवस पर कार्यालय समय के दौरान अधोहस्ताक्षरकर्ता के समक्ष समर्थक दस्तावेजो के साथ अपने आक्षेप प्रस्तुत कर सकेगा। उपर्युक्त नियत समय किया। बंदुक से फायर करने के के भीतर-भीतर किसी आक्षेप के अभाव में यह समझा जायेगा। कि किसी को आक्षेप नहीं है और तदनुसार मामले मामले में भुला निवासी एक का निपटारा किया जायेगा। यह सूचना भेरे हस्ताक्षर और मुहर के अधीन आज दिनांक 18.06.2019 को जारी की गयी। ्रप्राधिकारी अधिकारी नगरपालिका, सुमेरपुर

## 05.07.2019 को विक्रय कर प्राप्त की जावेगी। निविदा की शेष शर्ते यथावत रहेंगी।

02.07.2019 तक नियत

क्रमांक :- न.नि.भ./निर्माण/2019-20/257

🧥 कार्यालय नगर निगम, भरतपुर 🧥

निविदा सचना- 08

नगर निगम, भरतपुर द्वारा 5 कार्यों की निविदा सूचना क्रमांक 227 दिनांक

21.06.2019 को जारी की गई थी। जिसमें निविदा विक्रय एवं प्राप्ति दिनांक

http://sppp.rajasthan.gov.in पोर्टल पर अपलोड न होने के कारण दिनांक

था। उक्त

(Civil Procedure Code Appendix 'H' Form No. 4) . अज अदालत श्रीमान अपर जिला न्यायाधीश क्रं. सं.1 आबूरोड ब इजलास श्री विरेन्द्र कुमार जसूजा

नोटिस वास्ते जाहिर

करने की वजह

(R.H.J.S.) श्रीमती लक्ष्मी व अन्य बनाम जो कोई हो मुकदमा नं. CM (NC) 67/2019 बाबत धारा 10 व 25 संरक्षण एव प्रतिपालय अधिनियम

लिहाजा आपको इत्तला दी जाती है कि तारीख 03/07/2019 बरोज बधवार समयः 10 एएम. बजे दिन के अदालत हाजा या वकालात में हारिज होकर दरख्वास्त के खिलाफ हारिज करो वरना मजबूरन एक तरफा सुना व फैसला किया

बसिब्त मेरे दस्तखत व महर अदालत के आज तारीख 21/05/2019 को जारी किया गया है।

> आज्ञा से -रीडर अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश सं.१ आबुरोड (राजस्थान)

#### नोटिस वास्ते जाहिर करने की वजह

निविदा वेबसाइट

आयक्त

नगर निगम, भरतपर

प्रभावी ढंग से प्रस्तुत की। सरंपच

(Civil Procedure Code Appendix 'H' Form No. 4) अज अदालत श्रीमान अपर जिला न्यायाधीश क्रं. सं.1 आबूरोड ब इजलास श्री विरेन्द्र कुमार जसूजा ( R.H.J.S.)

श्रीमती लक्ष्मी व अन्य बनाम जो कोई हो मुकदमा नं. CM (NC) 68/2019 बाबत धारा 372 भा.उ. अधिनियम

लिहाजा आपको इत्तला दी जाती है कि तारीख 03/07/2019 बरोज बुधवार समयः 10 एएम. बजे दिन के अदालत हाजा या वकालात में हारिज होकर दरख्वास्त के खिलाफ हारिज करो वरना मजबूरन एक तरफा सुना व फैसला किया जायेगा।

बसिब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत वे आज तारीख 21/05/2019 को जारी किया गया है।

आज्ञा से रीडर अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश

दिनांकः 02 जुलाई 2019

**CMYK CMYK**